

AMCO INDIA LIMITED

Corporate Office: C 53-54, Sector 57, Noida, Uttar Pradesh 201301

**Regd. Office: 10795, Shop No. GF-7, Jhandewalan Road, Rexine Bazaar, Nabi Karim, New
Delhi-110055**

CIN: L74899DL1987PLC029035 PH: 0120 - 4601500

Email: amco.india@ymail.com

Website: www.amcoindialimited.com

8th February, 2021

**The Manager,
Corporate Services Department
BSE Limited,
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai Maharashtra- 400 001**

Ref: Scrip Code: 530133

Sub: Clippings of Newspaper Advertisement of the notice of Board Meeting to be held on 12th February, 2021.

Dear Sir/Mam,

Please find attached the copies of clippings of Newspaper Advertisement of the notice of Board Meeting of Amco India Limited scheduled to be held on Friday, the 12th day of February, 2021 as published in the English (The Financial Express) and Hindi (Jansatta) edition dated 6th February, 2021 & 7th February, 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For **Amco India Limited**


Priyanka Beniwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a.

VALLABH STEELS LIMITED
 Regd. Office: G.T. Road, Village Pawa Sahnewal, Ludhiana-141 120
 CIN: L27109PB1980PLC004327
 Tel.: 0161-2511413, Fax: 0161-2511414
 E-mail: fin.ho@vallabhsteel.com
 website: www.vallabhsteel.com

COMPANY NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company at G.T. Road, Village Pawa, Sahnewal, Ludhiana on Saturday, the 13th February, 2021 to take on record the unaudited financial results for the quarter ended 31st December, 2020. The said information is also available on Company's website at www.vallabhsteel.com and also on the stock exchange website at www.bseindia.com.

FOR VALLABH STEELS LIMITED
 Sd/-
 Date: 05-02-2021 (KAPIL KUMAR JAIN)
 Place: Ludhiana Chairman

CORRIGENDUM
 Form No. INC-25A
 Advertisement for conversion of Public Company into a Private Company
 Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region
 In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2018
 AND
 In the matter of M/s ACL Mobile Limited having its Registered Office at 104-107, Hemkunt Tower 98, Nehru Place, New Delhi - 110019, (Applicant)
 It is to notify the following change in the Advertisement / Notice published in the Financial Express and Jansatta newspapers on 24th January 2021 that the application is being filed in pursuance to the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 28th December 2020 instead of 7th December, 2020.
For and on behalf of the Applicant
 ACL Mobile Limited
 Sd/-
 Date: 05.02.2021
 (Pronamika Bhattacharya)
 GM-Legal
 Place: New Delhi

ROLLATAINERS LIMITED
 (CIN: L21014HR1968PLC004844)
 Regd. Office: Plot No. 73-74, Phase-III, Industrial Area, Dharuhera, District-Rewari
 Rewari-123106
 Phone: 01274-243326, 242220
 E-mail: cs.rollatainers@gmail.com
 Website: www.rollatainers.in

NOTICE OF BOARD MEETING
 Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on **Friday, the 12th day of February, 2021**, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31st, 2020.
 The said Notice may be accessed on the Company's website at www.rollatainers.in and the website of the stock exchange(s).

For Rollatainers Limited
 Sd/-
 Date: 05.02.2021
 Place: New Delhi
 Pyush Gupta
 Whole Time Director
 DIN: 03392885

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
 (CIN: L24239HR1984PLC040797)
 Regd. Office: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mtr. Road Dharuhera Rewari HR 123401
 Phone: +91-7419885077
 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com
 Website: www.newtimeinfra.in

NOTICE OF BOARD MEETING
 Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on **Friday, the 12th day of February, 2021**, inter alia, to consider, approve and take on record the un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020.
 The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

For NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
 Sd/-
 Date: 05.02.2021
 Place: New Delhi
 ASHISH PANDIT
 Director
 DIN: 00139001

PEARL Polymers Limited
 PET
 CIN: L25209DL1971PLC005535
 Regd. Office: A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, INDIA
 Tel. No.: +91-11-47385300,
 Fax: +91-11-47480746
 Email: pearl@pearlpet.net
 Web: www.pearlpet.net

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, the 12th day of February, 2021**, inter alia to consider and approve, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.
 The said Notice may be accessed from the website of the Company at www.pearlpet.net and from the Stock Exchanges website, where the equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com (BSE Limited) and www.nseindia.com (National Stock Exchange of India Limited).

For Pearl Polymers Limited
 Sd/-
 Date: 05 February, 2021
 Place: New Delhi
 Vineet Gupta
 Company Secretary & Compliance Officer

CCL INTERNATIONAL LIMITED
 CIN No.: L26940DL1991PLC044520
 Regd.Off.: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi - 110033
 Tel: +91-0120-4214258
 Email ID: cmsec@ccl.com,
 Website: www.evocretaindia.com

NOTICE
 Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, February 12, 2021** at the Registered Office of the Company at M-4, Gupta Tower, B1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the company for the quarter ended December 31, 2020.
 The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.evocretaindia.com).

For CCL International Limited
 Sd/-
 Pradeep Kumar
 Place: New Delhi
 Company Secretary
 Date: 05.02.2021
 M. No. A50972

FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED
 CIN: L52324DL1981PLC012033
 Regd. Office: G-4, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi - 110028
 Tel: 011-25774212
 Email: rekha.srivastava2016@gmail.com
 Website: www.fortuneinternational.in

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29, 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, the 12th day of February, 2021**, at the Registered Office of the Company at 3:00 PM, to consider and approve the Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.
 Further, the Company confirms that as per Clause V of the Company's Internal Code of Conduct, the trading window for dealing in the securities of the Company would remain closed for the designated persons covered under the said code of the Company from Saturday, 06th February, 2021 to Friday, 12th February, 2021 (both days inclusive). Investors may visit the website of the Company (www.fortuneinternational.in) and Stock Exchange website (www.bseindia.com) for further details.

For Fortune International Limited
 Nivedan Bhardwaj
 Managing Director
 DIN: 00040191
 Place: New Delhi
 Date: 05.02.2021

AMSONS APPARELS LIMITED
 REG. OFFICE: 303, 2nd Floor, Plot No. 13-A, Veer Complex, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092
 CIN No: L74899DL2003PLC122266

NOTICE
 Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on **Thursday, 11th February, 2021** at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 31st December, 2020.
 A copy of the said notice shall also be available at the company's website www.amsonsparels.com and on stock exchange website www.bseindia.com

For AMSONS APPARELS LIMITED
 Sd/-
 Date: 05.02.2021
 AGUSTEEN KACHAP
 DIRECTOR
 Place: New Delhi

State Bank of India भारतिय स्टेट बैंक
 Stressed Assets Recovery Branch, 3rd & 4th floor, State Bank House, 18/4 Arya Smaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005
 Tel.011-28752163 Fax. 28755674 Branch e-mail : sbi.51521@sbi.co.in

CORRIGENDUM
 Corrigendum is in reference to the publication in Jansatta and Financial Express newspapers dated 03.02.2021 regarding NOTICE:MEGA-AUCTION DATED 05.03.2021.
 1. Please note that Reserve Price of property at SL NO. 9 pertaining to ANG GLOBALS is Rs.3.73 lacs (instead of Rs.1.09 lacs wrongly mentioned in Hindi newspaper Jansatta).
 2. Reserve Price of property at SL NO. 10 pertaining to Sh Sanjeev Gupta, Smt Alka Gupta, Sh Abhinav Gupta and Mrs. Malvika Gupta is Rs.23.16 lacs (instead of Rs.3.73 lacs, wrongly mentioned in Hindi newspaper Jansatta).
 3. In the column of Description of property at SL NO. 12 pertaining to M/s. Mittal Cotton & Oil Mill, please read: A vacant plot having its khata 307 (instead of A vacant having its khata 307).
AMENDMENT IN TERMS AND CONDITIONS:
 DATE OF VISIT TO THE PROPERTY ON: 01.03.2020 FROM 10:00 TO 04:00 PM
 Date and time for submission of request for participation, KYC Documents, PAN Card, Proof of EMD etc on or before 03.03.2021 (instead of 05.03.2021) online through our service provider MSTC web portal: https://www.mstccommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
 The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount through NEFT after registration on https://www.mstccommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
 For any assistance, please call MSTC HELPLINES Nos. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 AND/OR authorised officer (contact person). For details of properties, please visit https://ibapi.in
 PLEASE NOTE THAT EMD WILL BE DEPOSITED BY NEFT ONLY THROUGH REGISTRATION AT https://www.mstccommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
 All other terms and conditions will remain the same. CARE: Please note that EMD amount is not to be deposited directly in SBI Collection Account no. 65243320066.
 Date: 05.02.2021
 Place: New Delhi

Authorised Officer,
 SBI, SARB-II, Karol Bagh, New Delhi (BRANCH CODE 51521)

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED
 CIN: L74899DL2000PLC105817
 Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020.
 Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671
 Website: www.tigerlogistics.in, Email: cvshishal@tigerlogistics.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING
 In accordance with regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 notice is hereby given that a meeting of the board of directors of Tiger logistics (India) limited is scheduled on **Friday, 12th February, 2021** inter alia, consider, approve and take on record the un-audited financials of the company for the quarter ended 31st December, 2020.
 Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended & Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report the trading of securities of the company read with BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 02.04.2019, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already closed for all "Designated Persons" of the Company from January 1st, 2021 till 48 hours after the declaration of the financial results of the Company for the quarter ended 31st December, 2020 to the Stock Exchange (both days inclusive).
 This Notice is also available on the website of the company at www.tigerlogistics.in and on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

For Tiger Logistics (India) Limited
 Sd/-
 Date: 05.02.2021
 Place: New Delhi
 Vishal Saurav Gupta
 Company Secretary & Compliance Officer

IM+CAPITALS LIMITED
 CIN: L74140DL1991PLC340407
 Registered Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place, New Delhi-110001
 Email: imcapitalscompliances@gmail.com Web: www.imcapitals.com

NOTICE FOR BOARD MEETING
 In Pursuance of regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 12th February, 2021** inter alia to consider and approve the un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 at the registered office of the Company.
 Further pursuant to SEBI (Prohibition of insider trading) Regulations, 2015 and Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report, Trading by insiders", the trading Window of the Company is already closed w.e.f. January 1st 2021 till 48 hours after the unaudited Financial Results are made public on February 12th, 2021.
 The Notice is also available on the website of the Company at www.imcapitals.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

For IM+ CAPITALS LIMITED
 Sd/-
 Vishal Singhal
 (Director cum Chairman)
 Date: 05.02.2021
 Place: New Delhi

FORM NO: URC-2
 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XI of the Act Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), that APS Infra a partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.
 2. The Principal objects of the company are as follows:-
 To take over the running business of M/s APS Infra (a partnership firm vide registration No. GS/N0004945) and to carry on the business of construction of Road work, Earth work, and infra related projects work.
 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 501, 5th Floor, MSX Tower, Alpha-1 Commercial Belt, Sector-Alpha-1, Greater Noida, G. B. Nagar, Uttar Pradesh-201308.
 4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6/7, Sector 5, IIT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one (21) days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.
Dated this 05th day of February, 2021.
For APS Infra
 Anand Pratap Singh Applicant Partner
 Poonam Singh Applicant Partner
 For Amco India Limited
 Sd/-
 Surennder Kumar Gupta
 Date: 04.02.2021
 Managing Director

DCM NOUVELLE LIMITED
 Registered office: 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008
 Corporate Identity Number: L17309DL2016PLC307204
 Phone: 011-4501 3348
 E-mail: dcmmouvelledtd@gmail.com, Website: www.dcmvnl.com

Extract of the unaudited statement of financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2020

(Rs. in lacs except as stated otherwise)

Sr. No.	Particulars	Three months ended 31 December 2020		Three months ended 31 December 2019		Nine months ended 31 December 2020		Nine months ended 31 December 2019		Year ended 31 March 2020
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total income from operations	15,237	15,053	37,586	44,470	58,522				
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,637	483	829	373	656				
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,637	483	829	373	656				
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	1,226	338	604	261	432				
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax))	1,227	326	607	225	435				
6	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868				
7	Reserves excluding Revaluation Reserve (as shown in the Balance Sheet of previous year)									13,494
8	Earnings per share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) - Basic and diluted (Rs.)	6.56	1.81	3.23	1.40	2.31				

Notes:
 1. The unaudited financial results of DCM Nouvelle Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 05 February 2021. The Statutory Auditors have carried out a limited review of unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31 December 2020, in accordance with Regulation 33, of the Securities and Exchange Board of India (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
 2. The above is an extract of the detailed format of financial results of the Company for the quarter and nine months ended on 31 December, 2020 filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone financial results are available on the Stock Exchanges' websites <http://www.nseindia.com> and <http://www.bseindia.com> under Financial Results in Corporates Section and on Company's website www.dcmvnl.com.

For and on behalf of the Board of Directors
 DCM Nouvelle Limited
 Sd/-
 Hemant Bharat Ram
 Managing Director
 DIN: 00150933
 Place: New Delhi
 Date: 05 February, 2021

GARG ACRYLICS LTD.
 Regd. Office : A-50/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
 CIN : L74999DL1983PLC017001
 E-mail: gargacrylics@yahoo.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2020

(Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31-12-2020		9 Month ended 31-12-2020		Quarter ended 31-12-2019		Year ended 31-03-2020	
		(Unaudited)	(Audited)	(UnAudited)	(Audited)	(UnAudited)	(Audited)	(UnAudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	35822.81	86453.66	33819.49	139782.89				
2	Net Profit before Tax	1587.58	-1670.49	404.14	-2209.49				
3	Net Profit after tax & minority Interest	1723.92	-1245.60	338.30	-1635.07				
4	Total Comprehensive Income after Minority Interest (Comprising Net Profit and Other Comprehensive Income net of tax)	1728.70	-1231.20	354.06	-1615.88				
5	Paid up Equity Share Capital	664.28	664.28	664.28	664.28				
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (EPS) Basic and Diluted Earning per share (Rs.) (not annualised)	25.96	-18.75	5.09	-24.61				

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for Quarter ended 31-12-2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website "www.mseil.in" and Company's Website "www.gargitd.com".
 b) Key Standalone financial information is given below:-

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended 31-12-2020		9 Month ended 31-12-2020		Quarter ended 31-12-2019		Year ended 31-03-2020	
	(Unaudited)	(Audited)	(UnAudited)	(Audited)	(UnAudited)	(Audited)	(UnAudited)	(Audited)
Income from Operations	35822.49	86453.56	33819.38	139782.67				
Profit Before Tax	1587.26	-1670.50	404.14	-2209.52				
Profit After Tax	1723.87	-1245.61	338.30	-1635.07				

By order of the Board
 For Garg Acrylics Limited
 Sd/-
 Sanjiv Garg
 Managing Director
 (Din: 00217156)
 Place : Ludhiana
 Dated : 5th February, 2021

SHIVKAMAL IMREX LIMITED
 Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
 Tel: 011-26192964, e-mail: info@shivkamalimrex.com, shiv_kamal@yahoo.com
 CIN: L21100DL1989PLC018993, Website: www.shivkamalimrex.com

NOTICE OF BOARD MEETING
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, February 12, 2021** at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.), New Delhi-110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. This information may be accessed on the Company's website at www.shivkamalimrex.com and on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com.

For Shivkamal Imrex Limited
 Sd/-
 Divya Gaur
 (Company Secretary)
 Place: New Delhi
 Date: 05.02.2021

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.
 Regd Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) PIN 482001
 CIN: L28100MP1979PLC049375

NOTICE
 Notice is hereby given that the 10th meeting of the Board of Directors for the Financial Year 2020-21(10/2020-21) of the Company will be held on **Saturday, 13th Day of February 2021 at 04:00 p.m., through Video Conferencing**, inter-alia, to consider, approve and take on record **Statement of Un-audited Financial Results (Standalone) for the Quarter ended 31st December, 2020 and other business matters.**
 Further in continuation of our intimation on closure of trading window Dated -31st December 2020 and pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, NSE Circular No. NSE /CML/2019/11 and BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 2nd April, 2019, the trading window in respect of the Company's securities will remain closed for designated persons, their immediate relatives and the persons with whom they have material financial relationship. The trading window will open after 48 hours of declaration of financial results for the Quarter ended 31st December, 2020.
For Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd
 Amit Kumar Jain
 Company Secretary
 Date: 05.02.21

Him Teknoforge Limited
 (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)
 CIN: L29130HP1971PLC000904
 Registered Office : Village Billanwali, Baddi, Distt: Solan (H.P.)-173205
 Telephone No. :+91(1795) 245466 Fax No. :+91(1795)245467
 E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.gagl.net

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations), Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, the 12th day of February, 2021** at 11:30 a.m. at Corporate Office of the Company situated at S.C.O. 19, First Floor, Sector-7C, Madhya Marg, Chandigarh-160019, inter-alia to consider and approve Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020.
 The said notice may be accessed on the Company's website at <http://www.gagl.net> and may also be accessed on the Stock Exchange website at <http://www.bseindia.com>.
 Further, the trading window for dealing in shares of the Company is already closed for insiders, directors, connected person and designated employees of the Company and shall open 48 hours after conclusion of the Board Meeting.

For Him Teknoforge Limited
 (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)
 Sd/-
 Abhishek Misra
 Company Secretary
 Manager Secretarial and Legal
 Place: Baddi
 Date: 05.02.2021

INDIAN OVERSEAS BANK RO: NHPC Complex, Sector. 33, 1st & 2nd Floor, Faridabad-121003, Telephone: 0129-2259544-50

E-AUCTION SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC Date & Time of Auction: 10.03.2021 from 11:00 AM to 01:00 PM.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES
 Under Proviso to Rule 8(6) and Rule 6(2) of Security Interest (Enforcement) Rules E-Auction Sale for Sale of Immovable and Movable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 6(2) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002.
 Notice is hereby given to the Public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable Property / Movable Property Mortgaged / Hypothecated / Pledged / Charged to the Secured Creditor, the "Symbolic/Physical Possession" of which has been taken by the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank (Secured Officer), will be sold on "As is where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 10.03.2021 as per details mentioned hereunder.

Sr. No.	Name of Borrower	Date of Demand Notice and Dues (with further interest and cost till realization)	Reserve Price EMD Amount	Incremental Bid Amount	Description of Property alongwith Name of Mortgagor (Owner of the Property) Type of Possession (Symbolic/Physical)	Name of Branch and Details of Contact Person
			Rs.27,90,700/- Rs.2,79,070/- Rs.10,000/-	LHS Rear portion at second floor built up on property bearing Old No. 25, New No. 140 with roof right Mohalla Kallupura, Om Market, Basant Road, Mallwara, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh. Measuring 337.43 Sq. Ft. The property is in the name of Garvit Shinghal. (Symbolic Possession)		
			Rs.19,57,600/- Rs.1,95,760/- Rs.10,000/-	Shop No. 1, Ground Floor without Roof Right, House (New) No. 140, Old No. 25, Kallupura, Tehsil & District - Ghaziabad, Uttar Pradesh. Measuring 125 Sq. Ft. The property is in the name of Smt. Lata Rani. (Symbolic Possession)		
2.	M/s Harsh Handloom	30.07.2020 Rs.17,05,803.05 with further interest at contractual rates & rests, charges etc till date of payment	Rs.19,57,600/- Rs.1,95,760/- Rs.10,000/-	Residential Building situated at Baljeet Nagar Ugarkheri Panipat measuring 3 Marle- 6 Sarsai being 33/2286 share of 12K-14M comprising in Khawat No. 12 Rect 1 Killa No. 12/1(4-10) rect 2 Killa No. 11/2(0-16) 20(7-8) situated at Village Ugarkheri, Tehsil & District: Panipat-132103, Haryana. The property is in the name of Shri. Pankaj Kumar. (Symbolic Possession)	Risalu Branch Mr. Nowshah Kumar Gupta Contact No. 825697711	

Outstanding Govt. Dues if any- Not Known, EMD Start Date: 08.02.2021, Last Date of Deposit of EMD up to - 09.03.2021.
Date and Time of Inspection of Property: From 08.02.2021 up to 09.03.2021, 10.00 AM to 4:00 PM, Date and Time of E-auction- 10.03.2021 from 11:00 AM to 01:00 PM.

- The properties will be sold by e-auction through the Bank's approved service provider portal <https://ibapi.in> under the supervision of the Authorized Officer of the Bank.
- E-auction bid document containing online e-auction bid form, declaration, general terms and conditions of online auction sale are available in <https://ibapi.in>
- Intending bidders

